




विशेष रिपोर्ट

# एनर्जी

( सितम्बर 2020 )



Moneywise. Be wise.



## एनर्जी

अगस्त महीने में, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि तेल बाजारों में हो रही रिक्वरी में चीन से मांग सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक रही है। अगस्त में चीन का सेवा क्षेत्र ढाई साल में सबसे तेज गति से बढ़ा। कच्चे तेल के बाजारों में तेजी को लेकर अच्छी खबर संयुक्त अरब अमीरात से आई क्योंकि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने कहा कि वह अक्टूबर में कच्चे तेल की आपूर्ति में 30% की कटौती करने की योजना बना रही है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों ने अगस्त में 7.5% की बढ़ोतरी के साथ लगातार पांचवीं मासिक वृद्धि दर्ज की। डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें तूफान लौरा के कारण 26 अगस्त को पांच महीने के उच्च स्तर 43.78 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने के बाद 5.8% की बढ़त के साथ लगातार चौथी मासिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुई। अमेरिकी गल्फ टट पर तेल का उत्पादन कम हुआ जबकि ऊर्जा कंपनियों ने पिछले महीने दो तूफानों के टकराने से पहले बंद किए प्लेटफार्मों और रिफाइनरियों को बहाल करने का प्रयास जारी रखा है।

## आउटलुक

कच्चे तेल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि वैश्विक मांग कोविड-19 से पहले के स्तरों से नीचे बनी हुई है जबकि अमेरिकी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर में ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों बेंचमार्क की कीमतों में उठापटक देखी जा सकती हैं क्योंकि यह उम्मीद है कि कोरोनावायरस महामारी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता के परिणामस्वरूप रिक्वरी धीमी हो सकती है। इस बीच, कच्चे तेल की मांग में वैश्विक सुधार इस तथ्य के बावजूद जारी है कि अगस्त में चीन द्वारा कच्चे तेल का आयात 7.4% घटकर 47.5 मिलियन टन (11.2 मिलियन बैरल/दिन) रह गया है क्योंकि क्षमता की कमी और कीमतों में रिक्वरी के कारण भंडार के लिए मांग धीमी है। चीन की मांग में कमी ऐसे समय में आई है जब ओपेक + समूह उत्पादन में कटौती में छूट दे रहा है और आपूर्ति बढ़ा रहा है। इसी समय, ईआईए के अनुसार अमेरिकी तेल उत्पादन जून में 420,000 बैरल प्रति दिन बढ़कर 10.44 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया, जिससे कीमतों पर और दबाव डाला। इसके अतिरिक्त, दो प्रमुख तेल आयातकों यूरोप में कोविड -19 की दूसरी लहर और भारत तेजी से बढ़ते वायरस के कारण भी कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

## प्रमुख खबरें

### आर्थिक गतिविधि कम होने के कारण ऊर्जा की मांग और आपूर्ति का पैटर्न बदल गया

ईआईए के सितंबर महीने के शॉर्ट-टर्म एनर्जी आउटलुक के अनुसार, कोविड-19 महामारी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण 2020 में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के पैटर्न में बदलाव आया है। शॉर्ट-टर्म एनर्जी आउटलुक के अनुसार 2020 की पहली छमाही की अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में 4.6% की गिरावट आई है और 2020 की तीसरी तिमाही में वृद्धि की शुरुआत होगी जो 2021 में 3.1% की साल-दर-साल की वृद्धि हो जाएगी।

### अगस्त में चीन में तेल का आयात कम हुआ

चीन में कच्चे तेल का आयात अगस्त में माह-दर-माह 7.4% घटकर 47.5 मिलियन टन (11.2 मिलियन बैरल/ दिन) रह गया, क्योंकि क्षमता की कमी और कीमतों में रिक्वरी के कारण भंडार के लिए मांग धीमी हो गई है। तेल की कीमतें घटने और बंदरगाह की भीड़ बनी रहने के कारण आयात का कम होना शुरू हो गया है। लेकिन आने वाले महीनों में इसमें तेज गिरावट की संभावना नहीं है क्योंकि चीन में ईंधन की मांग मजबूत बनी हुई है। सितंबर-अक्टूबर में ईंधन की अधिकतम खपत के मौसम के बीच रिफाइनरियां धीरे-धीरे मरम्मत के कार्य को पूरा कर रही हैं और और रिफाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन में तेजी से बढ़ोतरी हैं, ऐसी स्थिति में हम कच्चे तेल के आयात को उच्च स्तर पर बनाए रखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जून -जुलाई की तुलना में कम आयात होने की संभावना है।

### एमसीएक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

सितम्बर में कच्चे तेल की कीमतों के एक दायरे में कारोबार जारी रहने की संभावना है और कीमतों में किसी भी गिरावट की स्थिति में 2600 के नजदीक खरीददारी की अवसर है और 3200 रू तक बढ़त दर्ज की जा सकती है।

### नाइमेक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

### ओपेक+ द्वारा अगस्त में उत्पादन में कटौती में छूट

मई से 9.7 मिलियन बैरल प्रति दिन की कटौती करने के बाद, इराक और नाइजीरिया द्वारा क्षतिपूर्क कटौती को छोड़कर सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व में ओपेक और उसके सहयोगियों के गठबंधन ने 1 अगस्त से तेल उत्पादन में कटौती को घटाकर वर्ष के अंत तक 7.7 मिलियन बैरल प्रति दिन करने का फैसला किया। इसलिए ओपेक ने जुलाई की तुलना में अगस्त में अधिक तेल का उत्पादन किया, क्योंकि कार्टेल ने अपने उत्पादन कटौती में कमी करना जारी रखा, साथ ही मांग में सुधार के साथ अधिक उत्पादन को भी बढ़ावा दिया।

सर्वेक्षण के अनुसार अगस्त में तेल उत्पादन में 950,000 बैरल/दिन की वृद्धि हुई, और कुल उत्पादन 24.27 मिलियन बैरल/दिन हो गया। ओपेक+ कटौती के अनुपालन के तहत भरपाई के लिए इराक द्वारा अगस्त में अपने उत्पादन से अतिरिक्त 400,000 बैरल/दिन की कटौती के बावजूद उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। नाइजीरिया ने मई से अपने अतिउत्पादन की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन में कटौती करने का भी वादा किया था।

तेल की मांग में सुधार हो सकता है और इस प्रकार कार्टेल को अपने कोटा को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन इस वर्ष भी ओपेक तेल की मांग को लेकर विशेष रूप से आशावादी नहीं है। अपनी नवीनतम मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट में समूह ने कहा कि इस वर्ष तेल की मांग कम होकर 9.1 मिलियन बैरल/दिन रहने की उम्मीद है, इसके जुलाई के पूर्वानुमान से 100,000 बैरल/दिन अधिक है। ओपेक ने यह भी अनुमान लगाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल जुलाई में अनुमानित 3.7 प्रतिशत से भी अधिक 4 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

### अरामको ने आधिकारिक बिक्री मूल्य में कटौती की

सऊदी अरब के अरामको, जो दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक हैं, ने अक्टूबर में अपने अरब लाइट क्रूड की आधिकारिक बिक्री की कीमतों में कटौती की, जिसे मांग में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि कोविड-19 मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। इससे पहले, सऊदी अरब की सरकारी तेल उत्पादक अरामको ने अगस्त में एशिया में अपने कच्चे तेल के लिए आधिकारिक बिक्री मूल्य को 1 डॉलर प्रति बैरल बढ़ा दिया था।

### कोविड-19 के मामलों के बढ़ने से तेल मांग की रिकवरी बाधित

विश्व स्तर पर कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी ने चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं कि हाल ही में मांग में हुई रिकवरी बाधित हो सकती है क्योंकि आम जनता लंबी यात्राओं को लेकर सतर्कता बरत रही है। गर्मी के अंत में होने वाले पारंपरिक रूप से छुट्टियों से भरा सप्ताहांत में 50 अमेरिकी राज्यों में से 22 में कोरोनावायरस के मामले सामने आए। उसी समय भारत और ब्रिटेन में मामले बढ़ रहे हैं।

### अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और तेल बाजार पर संभावित प्रभाव

अमेरिका के प्रमुख शेल क्षेत्रों में तेल उत्पादक नवंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले संघीय भूमि पर ड्रिलिंग परमिट जमा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन की जीत से तेल क्षेत्रों की गतिविधियों पर लगाम कसी जा सकती है।

टेक्सास और न्यू मैक्सिको में स्थित पर्मियन बेसिन में सबसे बड़े अमेरिकी तेल क्षेत्र में पिछले तीन महीनों में तेल ड्रिलिंग के लिए अनुमति में 80% की बढ़ोतरी हुई है, जिसे विश्लेषक बिडेन की जीत के मुकाबले बचाव मानते हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय मतदान में कई मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से आगे हैं। बिडेन ने कहा है कि वह बाधाओं को ध्यान में रखते हुए फ्रैकिंग पर एकमुश्त प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते हैं।

लेकिन उनकी जलवायु योजना में सार्वजनिक भूमि पर नए तेल और गैस परमिट पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जिसको लेकर उद्योग समूहों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा और ऊर्जा में बढ़ोतरी में कटौती करेगा, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बना दिया है।

हाल के वर्षों की शेल क्रांति ने पिछले साल हाइड्रोलिक फ्रैकिंग, या फ्रैकिंग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 12 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा दिया, जो कि पर्यावरण के लिए काफी विवादास्पद रहा क्योंकि इसमें तेल या नेचुरल गैस निकालने के लिए उच्च दबाव में पानी, रेत और रसायनों को पत्थरों में पंप करना पड़ता है।

डेटा फर्म एनवरस के अनुसार, 24 अगस्त तक, उत्पादकों को परमियन बेसिन में फेडरल भूमि पर नए कुओं के लिए पिछले वर्ष के सभी के लिए 1,068 और 2018 में 265 की तुलना में 974 परमिट प्राप्त हुए हैं।

24 अगस्त तक 90 दिनों में, उत्पादकों को परमियन में 404 परमिट प्राप्त हुए, जबकि 2019 और 2018 की समान अवधि में क्रमशः 225 और 11 की तुलना में परमिट प्राप्त हुए थे।

#### ईआईए का अनुमान

- ईआईए का अनुमान है कि वैश्विक पेट्रोलियम और तरल ईंधन की मांग अगस्त में 94.3 मिलियन बैरल/दिन औसत रही जो अगस्त 2019 की मांग की तुलना में 8.2 मिलियन बैरल/दिन कम है, लेकिन यह 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान औसत 85.1 मिलियन बैरल/दिन से अधिक है और जुलाई 2020 के 93.3 मिलियन बैरल/दिन से अधिक है।
- ईआईए का अनुमान है कि 2020 में वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम और तरल ईंधन की खपत औसतन 93.1 मिलियन बैरल/दिन रहने का अनुमान है, जो 2019 की तुलना में 8.3 मिलियन बैरल/दिन से कम जबकि 2021 में 6.5 मिलियन बैरल/दिन की वृद्धि होने का अनुमान है।
- ईआईए का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर लिक्विड ईंधन का उत्पादन अगस्त में औसतन 91.5 मिलियन बैरल/दिन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.7 मिलियन बैरल/दिन कम है। यह कमी पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) और भागीदार देशों (ओपेक+) के संगठन द्वारा उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती और तेल की कम कीमतों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रिलिंग गतिविधियों में कमी के कारण हुई है। 2021 में वार्षिक औसत उत्पादन बढ़कर 99.3 मिलियन बैरल/दिन होने का अनुमान है।
- संयुक्त राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन हाल के महीनों में 12.7 मिलियन बैरल/दिन से घटकर 2020 की पहली तिमाही में घटकर मई में 10.0 मिलियन बैरल/दिन हो गया है। ईआईए का अनुमान है कि अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन अगस्त में बढ़कर 10.8 मिलियन बैरल/दिन हो गया। दूसरी तिमाही में तेल की कम कीमतों के बीच उत्पादन में कटौती के बाद कीमतों में वृद्धि के जवाब में तेल संचालकों द्वारा उत्पादन शुरू किया गया। तूफान लौरा के परिणामस्वरूप मैक्सिको की खाड़ी में उत्पादन बंद होने के बावजूद कुल अमेरिकी उत्पादन में वृद्धि हुई। ईआईए को उम्मीद है कि सितंबर में मैक्सिको की खाड़ी में उत्पादन 11.2 मिलियन बैरल/दिन तक बढ़ जाएगा।
- ईआईए का अनुमान है कि 2020 की दूसरी तिमाही में अमेरिकी लिक्विड ईंधन की खपत औसतन 16.2 मिलियन बैरल/दिन रही, जो 2019 में समान अवधि से 4.1 मिलियन बैरल/दिन (20%) कम है।
- ईआईए को उम्मीद है कि 2020 में अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन 11.4 मिलियन बैरल/दिन और 2021 में 11.1 मिलियन बैरल/दिन, जो 2019 में 12.2 मिलियन बैरल/दिन से कम होगा।

**West Texas Intermediate (WTI) crude oil price and NYMEX confidence intervals**  
dollars per barrel




Note: Confidence interval derived from options market information for the five trading days ending Sep 3, 2020. Intervals not calculated for months with sparse trading in near-the-money options contracts.

Sources: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, September 2020, CME Group, and Bloomberg, L.P.




**World liquid fuels production and consumption balance**  
million barrels per day



Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, September 2020




**Annual change in world liquid fuels consumption**  
million barrels per day



Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, September 2020



**Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) surplus crude oil production capacity**  
million barrels per day



Note: Black line represents 2010-2019 average (2.2 million barrels per day).

Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, September 2020





## नेचुरल गैस

अगस्त में अमेरिकी एलएनजी निर्यात छह महीने में पहली बार बढ़ोतरी होने के साथ तूफानों के कारण उत्पादन बंद होने और अमेरिकी नेचुरल गैस की मेक्सिको को रिकॉर्ड बिक्री के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में नाइमेक्स में 34% से अधिक और एमसीएक्स में 40% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। रैफिनटिव के अनुसार सितम्बर में 48 लोअर अमेरिकी राज्यों में उत्पादन 88.0 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन तक बढ़ सकता है, जो अगस्त में तीन महीने के निचले स्तर 87.6 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन था। यह नवंबर के सर्वकालिक मासिक उच्च 95.4 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन से कम है।

## आउटलुक

नेचुरल गैस की कीमतों में बहुत अच्छी बढ़त देखी गई है और कीमतों में 170-200 रू के दायरे में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है और इसलिए कीमतों में गिरावट के बाद खरीददारी एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। बढ़ते निर्यात और सितम्बर के मध्य से मौसम के सामान्य से अधिक गर्म रहने के अनुमान के कारण कीमतों को 165 के पास सपोर्ट रह सकता है जबकि रेजिस्टेंस 200 के पास रह सकता है। सितंबर के अंत में, हालांकि, मांग में गिरावट की उम्मीद है क्योंकि मौसम ठंडा होने के साथ-साथ एयर कंडीशनिंग का उपयोग कम हो जाता है। अमेरिका के एलएनजी निर्यात टर्मिनलों में गैस प्रवाह की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि लुइसियाना में चेनर्जी एनर्जी इंक के सबाइन पास प्लांट में तूफान लॉरा के बंद होने के बाद अब उत्पादन का बढ़ना जारी है। सितंबर में मेक्सिको को पाइपलाइन निर्यात 6.2 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन तक बढ़ने का अनुमान है जबकि अगस्त में 5. बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन हुआ था। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के 9 सितंबर, 2020 को अपने शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक के अनुसार 2020 में अमेरिकी नेचुरल गैस का उत्पादन और मांग पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से कम हो जाएगी क्योंकि कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों और ऊर्जा की कीमतों में कमी हुई है।

## प्रमुख खबरें

- हेनरी हब में नेचुरल गैस की हाजिर कीमतें अगस्त में औसतन 2.30 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) थी ।
- ईआईए का अनुमान है कि हेनरी हब में हाजिर कीमतें जनवरी 2021 तक 3.40 डॉलर/ एमएमबीटीयू होगी।
- ईआईए का अनुमान है कि हेनरी हब में हाजिर कीमतें पूरे 2021 में औसत कीमतें 3.00 डॉलर/ एमएमबीटीयू होगी जो 2020 में औसतन 2.16 डॉलर/ एमएमबीटीयू से अधिक होगी ।
- ईआईए का अनुमान है कि अमेरिका में गैस की खपत 2019 में रिकॉर्ड 84.97 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन से कम होकर 2020 में 82.68 और 2021 में 79.14 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन होगी।
- ईआईए का अनुमान है कि 2020 में सूखी गैस का उत्पादन 2019 के रिकॉर्ड 92.21 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन से कम होकर 89.88 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन और 2021 में 86.59 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन रह जाएगा ।
- ईआईए का अनुमान है कि सितम्बर में गैस की सप्लाई और मांग अगस्त के 88.65 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन की सप्लाई और 82.42 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन की मांग से अधिक होगी ।
- एजेंसी का अनुमान है कि अमेरिकी लिक्वीफाइड नेचुरल गैस का निर्यात 2020 में 6.27 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन और 2021 में 8.73 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन तक पहुंच जाएगा ।

### एमसीएक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

कीमतों में गिरावट के बाद खरीददारी की जा सकती है कीमतों को 165 के स्तर पर सपोर्ट और 200 के स्तर पर रेजिस्टेंस रह सकता है।


### नाइमेक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

### U.S. natural gas production, consumption, and net imports

billion cubic feet per day




Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, September 2020



### U.S. natural gas consumption

billion cubic feet per day




Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, September 2020



### Components of annual change

billion cubic feet per day



एसएमसी ग्लोबल सिम्बोयोटिक लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निपटारा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे प्रोडिग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोयोटिक लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कॉमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेन्ट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोयोटिक लिमिटेड सेबी (रिजर्व एनॉलिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिजर्व एनॉलिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोयोटिक लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्बोयोटिक मार्केट/कॉमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिजर्व एनॉलिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिजर्व एनॉलिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कॉमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिजर्व रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सर्वुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कॉमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में चिह्न किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कॉमोडिटी में खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कॉमोडिटी के किसी भी प्रकार के सौतों में और प्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।